

CIN: L74110DL1992PLC116773

May 24, 2022

To

Corporate Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

> Scrip Code: 539660 Scrip ID: BESTAGRO

<u>Sub:</u> Intimation on newspaper advertisement in respect of published Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2022

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed herewith the copy of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2022, as published by the Company in Newspaper viz. Financial Express (in English) and Jansatta (in Hindi) on May 24, 2022.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Faithfully, For BEST AGROLIFE LIMITED For Best Agrolife Limited

Astha Wahi CS & Compliance Officer

Construction of CEO, DJB Camp Office at Jal Vihar 4791316/-

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

										(₹ In Lakhs		
PARTICULARS		STANDALONE					CONSOLIDATED					
	QUARTER ENDED			YEAR ENDED		QUARTER ENDED			YEAR ENDED			
	31-03-2022	31-12-2021	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-12-2021	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021		
	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED		
Total Income from operations	25,813.08	20,719.40	20,812.94	1,13,427.44	90,544.50	30,935.34	23,249.24	20,812.94	1,21,079.54	90,544.50		
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,822.43	1,992.31	3,464.83	11,606.38	5,078.57	4,932.72	2,341.62	3,464.83	14,065.99	5,078.57		
Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,822.43	1,992.31	3,464.83	11,606.38	5,078.57	4,932.72	2,341.62	3,464,83	14,065.99	5,078.57		
Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	2,155.86	1,478.21	2,526.76	8,707.02	3,706.62	3,816.32	1,547.72	2,527.72	10,476.19	3,707.58		
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))		1,476.53	2,535.06	8,715.04	4,609.62	3,813.81	1,539.95	2,536.03	10,478.50	4,610.58		
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	2,364.47	2,364.47	2,203.21	2,364.47	2,203.21	2,364.47	2,364.47	2,203.21	2,364.47	2,203.21		
Earnings Per Share (EPS) (of ₹ 10/- each) on Net Profit (Not annualised) - Basic and Diluted	9.46	6.25	11.47	38.22	16.82	16.75	6.55	14.47	45.98	16.83		

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarter and Year ended financial results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website www.bestagrolife.com

and they have issued their Audit report with an un-modified opinion.

The Board of Directors at their meeting held on May 23, 2022 have recommended a final dividend of ₹ 2/- (20%) per equity share of ₹ 10/- each.

For Best Agrolife Limited Vimal Alawadhi Managing Director DIN: 01260082

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. Not for release in the United States. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated April 8, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the stock exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



AURUM PROPTECH LIMITED

Registrar of Companies. Maharashtra at Mumbai (RoC) dated June 27, 2013. Subsequently, our Company converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by the Shareholders of our Company on November 25, 2014, and the name of our Company was changed to Minefields Computers Limited and received a fresh certificate of incorporation from the RoC dated December 22, 2014. Thereafter, pursuant to the orders of the High Court of Judicature at Bombay and the High Court of Judicature at Gujarat dated April 30, 2015, approving a Scheme of Arrangement, the name of our Company was changed from Minefields Computer Limited to Majesco Limited, and received a fresh certificate of incorporation from the RoC dated June 12, 2015. Subsequently, pursuant to the acquisition of control and substantial shareholding of our Company by our Promoter from the erstwhile management of our Company, the name of our Company was changed from Majesco Limited to Aurum PropTech Limited pursuant to a special resolution passed by the Shareholders of our Company on September 6, 2021, and a fresh certificate of incorporation was issued by RoC dated October 1, 2021. For details of changes in the name of our Company, see 'General Information' on page 56 of the LOF. Registered Office: Aurum Building Q1, Gen-4/1, TTC Industrial Area, Thane Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra - 400710, India. Contact Person: Neha Sangam, Company Secretary;

Tel: +91 22 3000 1728; E-mail: investors@aurumproptech.in; Website: www.aurumproptech.in; Corporate Identification Number: L72300MH2013PLC244874

OUR PROMOTER: AURUM PLATZ IT PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UP TO 4,29,44,533 PARTLY PAID EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 5 EACH (RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 80 PER RIGHTS EQUITY SHARE (ISSUE PRICE) (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 75 PER RIGHTS EQUITY SHARE), AGGREGATING UP TO ₹ 34,355.63 LAKHS (ASSUMING FULL SUBSCRIPTION AND ALLOTMENT AND RECEIPT OF ALL CALL MONIES) ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 2 EQUITY SHARE(S) HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON THURSDAY, APRIL 14, 2022 (RECORD DATE) (THE ISSUE). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 16 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE 'TERMS OF THE ISSUE' ON PAGE 448 OF THE LOF.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Tuesday, April 26, 2022 and closed on Tuesday, May 10, 2022 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, May 5, 2022. Out of the total 14,618 Applications for 4,56,34,534 Rights Equity Shares, 1,419 Applications for 3,89,794 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the LOF. The total number of valid Applications received were 13,199 for 4,52,44,740 Rights Equity Shares, which was 105.36% of the Issue. The Basis of Allotment was finalised on Monday, May 16, 2022, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and the Designated Stock Exchange i.e. BSE. The Rights Issue Committee of the Board of Directors allotted 4,29,44,533 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment

The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Applicants	applications received	allotted against Rights Entitlement (A)	against Additional Rights Equity Shares applied (B)	accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	12,762	2,63,63,468	1,43,20,399	4,06,83,867
Renouncees	437	22,60,666	0	22,60,666
Total	13,199	2,86,24,134	1,43,20,399	4,29,44,533

Applications received Category Rights Equity Shares applied for Rights Equity Shares allotted Number Number Value (₹) Number Value (₹) % Shareholders 14,181 97.01% 4.23.40.934 84,72,94,640.00 92.79% 4,06,83,867 3,25,47,09,360.00 94.74% 437 2.99% 32,93,600 6,58,72,000.00 7.21% 22,60,666 18,08,53,280.00 5.26% Renounce 14,618 100.00% 4,56,34,534 91,31,66,640.00 100.00% 4,29,44,533 3,43,55,62,640.00 100.00% Total

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Investors, as applicable, has been completed on May 18, 2022. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on Monday, May 16, 2022. The listing application was executed with BSE on Tuesday, May 17, 2022 and NSE on Wednesday, May 18, 2022. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on May 19, 2022. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBAAccounts" on page 472 of the LOF. The trading in partly paid-up Rights Equity Shares issued in the Issue shall commence on BSE and NSE under a separate ISIN - IN9898S01019 upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about May 25, 2022. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on May 18, 2022.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of the LOF to the SEBI should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of SEBI as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on page 441 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by BSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of BSE as provided in "Other Regulatory and

Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE" on page 444 of the LOF. DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of NSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of NSE" on page 445 of the LOF.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY. LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE

DAM Capital Advisors Limited (Formerly IDFC Securities Limited) One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No. 1511, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4202 2500; Email: aurum.rights@damcapital.in Investor Grievance e-mail: complaint@damcapital.in; Website: www.damcapital.in

KFin Technologies Limited (Formerly KFin Technologies Private Limited)

Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032, Telangana. India Tel: +91 40 6716 2222; Email: aurumpropteh.rights@kfintech.com Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com Contact Person: M Murali Krishna; SEBI Registration No.: INR000000221

Contact Person: Chandresh Sharma; SEBI Registration No.: MB/INM000011336

Neha Sangam Aurum Building Q1, Gen-4/1, TTC Industrial Area, Thane Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra – 400710, India. Tel: + 91 22 3000 1728; Email: neha.sangam@aurumproptech.in

in case of delay in receipt of any statutory approval. SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not

due to any wilful default or neglect of the Acquirers or the failure of the Acquirers to diligently pursue the application for the

approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers agreeing to pay interest to the Public Shareholders

as directed by SEBI, in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, Further, if delay occurs on account of willul

default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become

In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, if the approvals mentioned in Paragraph VI (A) are not satisfactorily

complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirers have a right to withdraw the Offer. In the event of

withdrawal, the Acquirers (through the Manager), shall within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, make an announcement

stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations, in the same

newspapers in which the Detailed Public Statement was published, and such announcement will also be sent to SEBI, Stock

Note: The above timelines are indicative (prepared based on timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are

subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above

applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.

Tentative Activity Schedule

5. Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer will be received

7. Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target

Company whose names appear on the register of members on the Identified Date

8. Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent

10. Last date of publication of opening of Offer public announcement in the Newspapers

Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of

directors of the Target Company to the Public Shareholders for this Offer in the

9. Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size

consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders

(in the event SEB) has not sought clarification or additional information from the Manager)

Exchanges, and the Target Company at its registered office.

3. Last date for filing of the Draft Letter of Offer with SEBI

4. Last date for public announcement for a competing offer(s)#

2. Publication date of the Detailed Public Statement in the Newspapers

TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

6. Identified Date*

Newspapers

1. Issue date of the Public Announcement

11. Date of commencement of Tendering Period

12. Date of closing of Tendering Period

Khushbu Rakhecha Aurum Building Q1, Gen-4/1, TTC Industrial Area, Thane Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai,

COMPLIANCE OFFICER

Thane, Maharashtra – 400710, India. Tel: +91 22 3000 1740; Email: khushbu@aurumproptech.in Investors may contact the Registrar or our Company Secretary or our Compliance Officer for any Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e-mail ID of the sole/first holder, folio number or demat account number, serial number of the Application Form, number of Rights Equity Shares

applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or where the plain paper application was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For further details on the process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" on page 448 of the LOF.

For AURUM PROPTECH LIMITED On behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Date : May 23, 2022

Neha Sangam Company Secretary

Disclaimer: The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the NSE at www.nseindia.com, the BSE at www.bseindia.com, the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., DAM Capital Advisors Limited (Formerly IDFC Securities Limited) at www.damcapital.in, the website of the Company at www.aurumproptech.in and website of the Registrar at https://rights.kfintech.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" on page 26 of the LOF.

The Rights Entitlement and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (U.S. Securities Act), or any U.S. State Securities Laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America, or the territories or possession thereof (United States or U.S.), except in a transaction not subject to or exempt from, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. State Securities Laws. The Rights Entitlement and Rights Equity Shares referred to in the LOF are being offered and sold in offshore transactions outside the U.S. in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act to the existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares and / or Rights Entitlements are permitted under laws of such jurisdictions. The offering to which the LOF relates is not and under no circumstances is to be construed as an offering of any Rights Equity Shares or the Rights Entitlements for sale in the U.S. or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the issue or any of the securities described herein in the U.S. or to conduct a public offering of securities in the U.S. Accordingly, the Issue Documents and the Application Form should not be forwarded to or transmitted in or into the U.S. at any time. CONCEPT

Day and Date

Wednesday, May 18, 2022

Tuesday, May 24, 2022

Tuesday, May 31, 2022

Tuesday, June 14, 2022

Tuesday, June 21, 2022

Thursday, June 23, 2022

Thursday, June 30, 2022

Tuesday, July 05, 2022

Wednesday, July 06, 2022

Wednesday, July 06, 2022

Thursday, July 07, 2022

Wednesday, July 20, 2022

Wednesday, August 03, 2022

"Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders as on such date to whom the

the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

Letter of Offer would be sent. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

As per the provisions of Regulation 40 (1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 03, 2018, bearing reference number 'PR 49/2018', requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with SEBI bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020', shareholders holding securities in physical form are allowed. to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per

All Public Shareholders, registered or unregistered, holding the Equity Shares in dematerialized form or holding locked-in Equity Shares are eligible to participate in this Offer at any time during the period from the Offer Opening Date and Offer Closing Date before closure of the Tendering Period. All Public Shareholders who have acquired Egulty Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. Accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.

The Offer will be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window as provided under the SEBI (SAST) Regulations read with Acquisition Window Circulars.

BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering of Offer Shares in the Offer. The Acquirers have appointed Nikuni Stock Brokers Limited as the registered broker for this Offer, through whom the purchases and the settlement of the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name Nikunj Stock Brokers Limited Address A-92, Gf, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-110007, Delhi, India Contact Number +91-011-47030000/01 E-mail Address info@nikunjonline.com Contact Person Mr. Pramod Kumar Sultania

ON THE IDENTIFIED DATE. KINDLY READ IT CAREFULLY BEFORE TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER.

EQUITY SHARES ONCE TENDERED IN THE OFFER CANNOT BE WITHDRAWN BY THE PUBLIC SHAREHOLDERS.

All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stockbrokers ("Selling Brokers") within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED OR COURIERED TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY AS

FINANCIAL EXPRESS

DELHI JAL BOARD : DELHI SARKAR OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER (M)-10 TENDERING DIVISION (M)-10, ROOM NO. 103, 1st FLOOR, ENGINEERS BHAWAN,

Mail:- eetm10.djb@gmail.com. Mob.- 9650291341 NIT No. 18/EE (T) M-10/2022-23

NEAR MOOL CHAND CROSSING, ANDREWS GANJ, NEW DELHI-110049

Press Tender Reserve Date of release of tender in Last date and time for download & RTGS Name of work through e procurement solution e procurement solution Dredging of balance quantity of silt from River Yamuna 2022 DJB 222669 1 4.6.2022 upto 2.00 PM near intake at Wazirabad water works. (Re-invite) NIT No. 19/EE (T) M-10/2022-23 Press Tende Reserve | Date of release of tender in Last date and time for download & RTGS through e procurement solution

under EE(M)-41 (AC-41 Jangpura) upto 2.00 PM 20.5.2022 Further details in this regard can be seen at govtprocurement.delhi.gov.in **ISSUED BY P.R.O. (WATER)** Sd/- (B.N. Gupta) **EXECUTIVE ENGINEER (T) M-10**

2022_DJB_222668_1

Advt. No. J.S.V. 131 (2022-23) STOP CORONAVIRUS "WEAR MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE"

PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC
SHAREHOLDERS OF

INDERGIRI FINANCE LIMITED Corporate Identification Number: L65923MH1995PLC161968:

Registered Office: Office No 327, 3rd Floor, Goyal Trade Centre, Near Sona Talkies, Shantivan, Borivali (East), Mumbai – 400066, Maharashtra, India; Contact Details: 022-28280515; Website: www.indergiri.com; Email Address: info@indergiri.com.

Open Offer for acquisition of up to 13,15,860 (Thirteen Lakhs Fifteen Thousand Eight Hundred and Sixty) Equity Shares representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company held by the Public Shareholders in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto, at an offer price of ₹10.30/- (Rupees Ten and Thirty Paise Only) per Equity Share, made by Roshan Shah (Acquirer 1), Anand Devendra Tiwari (Acquirer 2), Wunnava V Shanker (Acquirer 3) and Mohit Agarwal (Acquirer 4) in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations ('Offer'). This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement ('Pre-Offer Advertisement') is being issued by CapitalSquare Advisors

Private Limited ('Manager'), for and on behalf of Roshan Shah ('Acquirer 1'), Anand Devendra Tiwari ('Acquirer 2'), Wunnava V Shanker ('Acquirer 3'), and Mohit Agarwal ('Acquirer 4') (Acquirer 1, Acquirer 2, Acquirer 3, and Acquirer 4 are hereinafter referred to as the 'Acquirers') pursuant to and

in compliance with the provisions of Regulation 18 (7) of the Securities Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, including subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations'), for acquisition of up to 13,15,860 (Thirteen Lakhs Fifteen Thousand Eight Hundred and Sixty) equity shares of face value of ₹10.00/- (Rupees Ten Only) each ('Equity Shares'), representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of Indergiri Finance Limited ('INDERGR' or the 'Target Company') from the Public Shareholders of the Target Company at an offer price of ₹10.30/- (Rupees Ten and Thirty Paise Only) per Equity Share ('Offer Price') payable in cash ('Offer'). This Advertisement is to be read in conjunction with the (a) Public Announcement dated Wednesday, March 09, 2022, ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Monday, March 14, 2022 which was published on Tuesday, March 15, 2022 in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi daily) (Mumbai Edition) ('Newspapers') ('Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Tuesday, March 22, 2022 ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Monday, May 16, 2022, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and Form SH-4 Securities Transfer Form ('Letter of Offer'), (e) Corrigendum to the Letter

of Offer dated Monday, May 16, 2022, which was published in the Newspapers on Tuesday, May 17, 2022 ('Corrigendum to the Letter of Offer'), (f) Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company dated Saturday, May 21, 2022 which was published in the Newspapers on Monday, May 23, 2022 ('Recommendations of IDC'), and (g) The dispatch of Letter of Offer confirmation advertisement dated Monday, May 23, 2022, which is being published in the Newspapers on Tuesday, May 24, 2022 ('Dispatch Confirmation Advertisement'). (The Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Corrigendum to the Letter of Offer, Recommendations of IDC, and Dispatch Confirmation Advertisement and Pre-Offer Advertisement are hereinafter referred to as the 'Offer Documents'). This Advertisement is being The Offer Price of ₹10.30/- (Rupees Ten and Thirty Paise Only) per Equity Share is payable in cash. There has been no revision in the Offer Price. Further, kindly note that the Acquirers have made an application with the Reserve Bank of India for change in control and management of the Target Company. However, as on date of this Pre-Offer Advertisement, the Target Company is yet to be in receipt of the necessary approval from the Reserve

Bank of India, for the said change in control and management of the Target Company in pursuance of this Offer and purchase of Equity Shares pursuant to the Share Purchase Agreement. Except for being in receipt of the approval from the Reserve Bank of India, there are no other statutory approval(s) required by the Acquirers to complete this Offer. In accordance with the provisions of Regulation 18 (11A) of SEBI (SAST) Regulations, if at the time of making payment to the Eligible Public Shareholders who have tendered their Equity Shares in the said Offer, the Target Company fails to receive the requisite approval from the Reserve Bank of India, then in such an event, an application shall be made to SEBI seeking extension of time from making payment to the said Public Shareholders, subject to ensuring revision in the Offer Price by addition of the delayed interest at the rate of 10.00% (Ten Percent) per annum on the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to the Paragraph 6.1 beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Committee of Independent Directors of the Target Company have opined that the Offer Price of ₹10.30/- (Rupees Ten and Thirty Paise Only) is fair and reasonable in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, which was approved on Saturday, May 21, 2022, and published on Monday, May 23, 2022, in the Newspapers.

This Offer is not a competing offer

The Letter of Offer has been dispatched to 1,477 (One Thousand Four Hundred and Seventy-Seven) Public Shareholders of the Target Company whose names appeared on Tuesday, May 10, 2022, being the Identified Date, through

Electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company on Monday, May Speed post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Email Addresses are inactive on Wednesday, May 18, 2022.

Please note that a copy of the Letter of Offer along with other Offer Documents are also available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Registrar at www.linkintime.co.in, and Manager at www.capitalsquare.in.

Public Shareholders are required to refer to the Paragraph 8 titled as 'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer' beginning on page 25 of the Letter of Offer in relation to the procedure for tendering their Equity Shares in the Offer

Instructions for Public Shareholders a) In case the Equity Shares are held in physical form

Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in this Offer through their Selling Broker by providing relevant information and documents as mentioned in Paragraph 8.9 titled as 'Procedure for Equity Shares held in physical form' beginning on page 26 of the Letter

of Offer along with Form SH-4. b) In case the Equity Shares are held in Demat form Public Shareholders holding the Equity Shares in dematerialized form may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their

Equity Shares in Offer as per the procedure as mentioned in Paragraph 8.10 titled as 'Procedure for Equity Shares held in dematerialized form'

beginning on page 27 of the Letter of Offer along with other details. All the observations of SEBI vide observation letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2022/19390/1 dated Friday, May 06, 2022', issued in terms of Regulation 16 (4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in

There are no other material updates in relation to this Offer since the date of Public Announcement, save as otherwise disclosed in the Offer As on the date of this Advertisement and to the best of knowledge of the Acquirers, except of being in receipt of the approval from the Reserve

Bank of India in terms of Paragraph 61 of Chapter - IX of Section III of Master Direction - Non-Banking Financial Company - Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016, bearing notification number DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 01, 2016, there are no statutory, regulatory, or other approvals required by the Acquirers to be implemented to complete this Offer. Please refer to the Paragraph 7.6 titled as 'Statutory Approvals and conditions of the Offer' beginning on page 25 of the Letter of Offer.

Day and Date

10. The schedule of activity for undertaking this Offer is scheduled as under: Schedule of Activities

		N .
Date of the Public Announcement	Wednesday, March 09, 2022	Wednesday, March 09, 2022
Date of publication of Detailed Public Statement in newspapers	Tuesday, March 15, 2022	Tuesday, March 15, 2022
Date of filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday, March 22, 2022	Tuesday, March 22, 2022
Last date for public announcement for competing offer(s)#	Wednesday, April 06, 2022	Wednesday, April 06, 2022
Last date for receipt of SEBI observations on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Tuesday, April 12, 2022	Friday, May 06, 2022@
dentified Date*	Monday, April 18, 2022	Tuesday, May 10, 2022
Date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders whose names appear on the register of members on the Identified Date	Monday, April 25, 2022	Wednesday, May 18, 2022
Last date by which the committee of the independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders for this Open Offer Last date for revising the Offer Price / Offer Size	Thursday, April 28, 2022 Friday, April 29, 2022	Monday, May 23, 2022 Tuesday, May 24, 2022
Date of publication of opening of Open Offer public announcement in the newspapers in which this Detailed Public Statement has been published	Friday, April 29, 2022	Tuesday, May 24, 2022
Date of commencement of Tendering Period ('Offer Opening Date')	Monday, May 02, 2022	Wednesday, May 25, 2022
Date of closure of Tendering Period ('Offer Closing Date')	Tuesday, May 17, 2022	Tuesday, June 07, 2022
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Tuesday, May 31, 2022	Tuesday, June 21, 2022

Note: The above timelines are indicative (prepared based on timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of requisite from Reserve Bank of India and such other approvals from various statutory/ regulatory authorities and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST)

There has been no competing offer.

@The actual date of receipt of Observation Letter from SEBI. *Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer would be sent. All the

Public Shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the parties to the Share Purchase Agreement) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer. The copies of the inspection documents as specified under Paragraph 13 titled as 'Documents for Inspection' beginning on page 33 of the Letter of Offer will be available for inspection at the registered office of the Manager, Capital Square Advisors Private Limited, located at 205-209, 2nd Floor.

AARPEE Center, MIDC Road No. 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India, or the Public Shareholders may access the

inspection documents accessible on the website of the Manager at https://capitalsquare.in/ifl-oo-id and by obtaining its login credential from the Manager, on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering period i.e., commencing from Wednesday, May 25, 2022, to Tuesday, June 07, 2022. 12. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Advertisement and for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Advertisement shall also be available and accessible on website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited

at www.bseindia.com, Target Company at www.indergiri.com, Registrar at www.linkintime.co.in, and Manager at www.capitalsquare.in. 13. The capitalized terms used in this Advertisement shall have the meaning assigned to them in the Offer Documents, unless otherwise specified.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

Teaming together to create value

Place: Mumbai

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED 205-209, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai - 400093, Contact Number: +91-22-6684-9999/ 145/ 138

Email Address: tanmoy.banerjee@capitalsquare.in/ pankita.patel@capitalsquare.in; Website: www.capitalsquare.in Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/ Ms. Pankita Patel SEBI Registration Number: INM000012219

Validity: Permanent

Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863

On behalf of the Acquirers

Revised Actual Schedule

Day and Date

Date: Monday, May 23, 2022 Mohit Agarwal

The Acquirers accept full and final responsibility for the information contained in the Public Announcement and this Detailed Public Statement and for their obligations as laid down in SEBI (SAST) Regulations. All information pertaining to the Target Company has been obtained from (i) publicly available sources, or (ii) any information provided or confirmed by the Target Company, and the accuracy thereof has not been independently verified by the Manager. The Acquirers have appointed Skyline Financial Services Private Limited, as the Registrar bearing SEBI Registration Number 'INR000001112', having office at D - 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020, Delhi, India, bearing

OTHER INFORMATION

contact details such as contact number '+91-011-26812682', Email Address 'virenr@skylinerta.com'and website 'www.skylinerta.com'. Mr. Subhash Agarwal, the contact person can be contacted from 10:00 a.m. (Indian Standard Time) to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) on working days (except Saturdays, Sundays, and all public holidays), during the Tendering Period.

Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have appointed Capital Square Advisors Private Limited as the Manager

This Detailed Public Statement will be available and accessible on the websites of Manager at www.capitalsguare.in. SEBI at www.sebi.gov.in, and BSE at www.bseindia.com.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

Teaming together to create value

Place: Mumbai

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED 205-209, 2th Floor, AARPEE Center, MIDC Road No. 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India Contact Details: +91-22-6684-9999/145/138;

Website: www.capitalsquare.in-Email Address: tanmoy.banerjee@capitalsquare.in/ pankita.patel@capitalsquare.in/ Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/ Ms. Pankita Patel SEBI Registration Number: INM000012219

Validity: Permanent

Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863

New Delhi

For and on behalf of the Acquirers

Sd/-Mr. Saurabh Goel Harsh Gupta Acquirer 3 Acquirer 4

Sd/-Mr. Gauray Goel Rakesh Kumar Goel Date: Monday, May 23, 2022 Acquirer 1 Acquirer 2

may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations; financiale

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 23, 2022. The audit has been conducted by statutory auditors of the Company

Place: New Delhi Date: May 23, 2022

नई दिल्ली, 23 मई (भाषा)।

निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों की आपत्तियों के बाद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर सहित अन्य कंपनियों के साथ हुए अपने पत्राचार का

खुलासा करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने यह जानकारी दी। पुणे के आरटीआइ कार्यकर्ता विहार दुर्वे ने निर्वाचन आयोग से 2019-2022 के बीच सोशल मीडिया कंपनियों के साथ हुए पत्राचार की जानकारी मांगी थी। अधिनियम की धारा 11 के तहत तृतीय पक्ष के खंड को लागू करते हुए आयोग ने पत्राचार का खुलासा करने पर

कंपनियों के विचार मांगे। जानकारी का खुलासा किए जाने के संबंध में अंतिम फैसला अधिकारी का होता है। दुवें ने 2019 से 2022 के बीच ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी अन्य सोशल मीडिया मंच के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए पत्राचार, रेकार्ड, सूचना, ईमेल आदि का विवरण मांगा था।

यौन उत्पीड़न पीड़िता ने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया कोच्चि, २३ मई (भाषा)।

अभिनेता दिलीप से जुड़े 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय का रुख कर मामले में दखल देने का अनुरोध किया और आरोप लगाया कि जांच को भटकाने की कोशिश

की जा रही है। पीडिता ने अपनी याचिका में निचली अदालत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 'पीठासीन कहा कि अधिकारी ' ' अपराधियों को बचाने के पीछे कुछ निहित स्वार्थ'

है। अपराध शाखा द्वारा कथित तौर पर डिजिटल साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के एक संबंधित मामले की जांच को खत्म करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद याचिका दर्ज की गई है। पीड़िता ने कहा, 'यह बताते हुए दुख हो रहा है कि केरल जिसने प्रारंभिक चरण में याचिकाकर्ता/पीड़िता

के मामले का समर्थन किया और पूरी निष्ठा के साथ पुलिस अधिकारियों निष्पक्ष जांच की अनुमति दी और राजनीतिक रूप से जांच कराने का श्रेय अब वह मामले में स्वतंत्र. निष्पक्ष और पूरी जांच कराने की अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता से पीछे हट गई है।' याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अभिनेता दिलीप ने राज्य में

सत्तारूढ़ मोर्चे के

कुछ नेताओं को

प्रभावित किया और

मामले में आगे की

जांच में हस्तक्षेप

करने का प्रयास

किया तथा समय से

पहले इसे बंद कर

दिया गया है।

मांग सूचना प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं प्रवर्तन तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियः 2002 (कथित अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत। कथित नियमों के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (पुर्व की इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सर्जदार(रों) से उन्हें निर्गत संबंधित मांग सचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सचनाएं निर्गत की हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में एतद्वारा कर्जदार(रों) को एक बार पुनः भुगतान की तिथि तक मांग सुचना की तिथि(यों) से भावी ब्याज सहित यहां नीचे उल्लिखित राशियों का इस सुचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा जाता है। कर्जदार(रों), मांग सुचना की तिथि तक बकाया राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान की ओर प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण निम्नलिखित है :-

साध, सोनम क्रिएशन (प्रॉस्पेक्ट

संख्या ९३११३० और ९३७१६७)

रु. 39.67.786/- (रुपये उनतालीस लाख खातून, (प्रॉस्पेक्ट संख्या 747496 निर्मित ग्राउंड फ्लोर (संपूर्ण) (एचआईजी टाइप) छत के अधिकार सहित, क्षेत्रफ 63.56 वर्ग मीटर, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, नीति खंड, गाजियाबाद, 201016 और 940885) प्रॉस्पेक्ट संख्या 940885 रु. 7.49.353/-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत तिरपन मात्र) (प्रॉस्पेक्ट संख्या 899421) रु. 25.60.385/- (रुपये पच्चीस लाख साव रहित, माप 53 वर्ग गज (113 वर्ग गज के कल क्षेत्रफल में से), प्लाट संख्या 15 हजार तीन सौ पिचासी मात्र) 154-ए और 154-बी के हिस्से पर निर्मित, खसरा संख्या 269 का हिस्सा, गांव नवादा माजरा हस्तल, लक्ष्मी विहार कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, गली नंबर-7, जैन अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : संपत्ति संख्या- 8951, पहली और दूस लाल, मैसर्स मनीष डाई क्लीनर 14,64,439/- (रुपये चौदह लाख चौंसठ मंजिल, वार्ड संख्या-IV, माप 119 वर्ग गज, गली नं। 14-बी, शीदीपुरा करोल हजार चार सौ उनतालीस मात्र) श्रीमती राज कली, श्रीमती रजनी बाग, करोल बाग, नई दिल्ली, 110005 प्रॉस्पेक्ट संख्या 811396) 44-ए, भूमि माप 100 वर्ग गज, कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज में से, खसरा नंबर भूपेंद्र सेन (प्रॉस्पेक्ट संख्या अठारह लाख बावन हजार चार सौ पच्चीस में से गांव कमरुद्दीन नगर दिल्ली राज्य के क्षेत्र में पुराने लाल डोरा 1908-1909 872684) के भीतर, दिल्ली, दिल्ली, 110041, दिल्ली, भारत

यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार आईआईएफएल एचएफएल का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल कथित अधिनियम की 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत कर्जदारों के पूर्ण जोखिम, लागतों तथा परिणामों पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। अधिर विवरण के लिए अधिकत प्राधिकारी से सम्पर्क करें : शाखा कार्यालय : आईआईएफएल एचएफएल, प्लॉट सं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के पास, मोती नगर, नई दिल्ली तथा कार्यालय सं. 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, प्लॉट सं. सी–1, सेक्टर–4, वैशार्ल | गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश-201001/अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय : आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा। स्थान : दिल्ली एवं गाजियाबाद तिथि : 24.05.2022 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

उनतीस हजार आठ सौ सैंतीस मात्र) प्रॉस्पेक्ट

संख्या 937167 रु. 1,00,478.00/- (रुप

एक लाख चार सौ अठहत्तर मात्र)

रुपये। 13,29,837.00/- (रुपये तेरह लाख | माप 25 वर्ग गज, गली नंबर 17 संपत्ति एल टाइप, शांति मोहल्ला, गांधी नग

दिल्ली, 110031, दिल्ली, भारत

पांजान नेशनल बैंतर िश्रिक्त punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

Oriental United

निम्न उल्लेखित पार्टी को एतदुद्वारा सूचित किया है कि बैंक ने आपके खिलाफ वित्तीय परिसंपत्तियों र प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत कार्यवाही शुरू की है और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस कूरियर द्वारा आपको भेजे गए जो लगता है डिलीवर नहीं हुआ। इसलिए, आपको इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस लेने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें विफल रहने पर बैंक अधिनियम के तहत निर्धारित अनुरूप अपने बकाया के साथ ब्याज और लागत के की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह नोटिस आपको बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के लिए पूर्वाग्रह के बिना संबोधित किया गया है। आपका ध्यान इस बात पर लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावद्यानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

गारंटर के नाम और पते. अचल संपत्तियों का विवरण श्री राजीव अग्रवाल (एनपीए खाता मै. श्री राजीव अग्रवाल के नाम पर भूमि धारक प्लॉट धारक सीटीएस नं. 83ए और 62ए/1 इंडियन पल्प और पेपर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-मुलगांव स्थित महाकाली केव्स रोड अंधेरी का गारंटर (उधारकर्ता)) (पूर्व) मुंबई 400093, तालुका अंधेरी, एमएसडी पताः मकान के-5/10, मॉडल टाउन, चरण-और स्टिल्ट कार पार्किंग नंबर 25, आरसीसी 3, आदर्श नगर, न्यू वीटीसी के लिए उत्तर स्टिल्ट से यक्त भवन निर्माण + ग्राउंड और 7 पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110009 ऊपरी मंजिलों और लिफ्ट के साथ 5वीं मंजिल पर एनपीए खाता मै. इंडियन पल्प और पेपर 2 बीएचके आवासीय फ्लैट नंबर 501, 75.62 प्राइवेट लिमिटेड में संघ अनुबंध के तहत वर्गमीटर के बराबर 814 वर्ग फट कालीन क्षेत्र. 17.05.2021 को बकाया "कात्यानी रेजीडेंसी" के रूप में जाना जाने वाला 56,58,18,359.58 रु. (छप्पन करोड़ भवन में सी विंग, कात्यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग अठावन लाख अठारह हजार तीन सौ सोसाइटी लिमिटेड के रूप में ज्ञात और उनसठ रुपए और अठावन पैसे) के साथ सीमाबद्धः पूर्व मेंः डी विंग/ओपन प्लॉट, पश्चिम पूर्ण भुगतान तक आगामी ब्याज जमा में: रोड/आत्मा दर्शन केंद्र, उत्तर में: सोवरडिया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के हाउस। दक्षिण में: रोड नंबर 11/कात्यानी

डिमांड नोटिस की तिथि: 18.05.2021 तिथि: 21.05.2022 प्राधिकृत अधिकारी

बिजनेस सेंटर।

POONAWALLA HOUSING

नावाला हाउासग फाइनस लामटड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिजात) पंजीकृत कार्यालय : 602, 6वां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे—411036

परिशिष्ट—IV (नियम 8(1) देखें) आधिपत्य सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधीहस्ताक्षरकर्ती ने पुनावाला हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) निगमित / पंजीकृत कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 व नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सुचना निम्न दिनांकित निर्गत की थी, जिसमें निम्न ऋणकताओं को सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने की

ऋणकर्तागण राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 की उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षिक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 20 मई 2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर

ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदुद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथ सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, वह एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतू पुनावाला हाउसिंग

फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्रभाराधीन होगा ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधाना की ओर आमंत्रित किया जाता है। आधिपत्य में ली गई संपत्ति के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं के नाम	संपत्ति का विवरण	आधिपत्य लिए जाने की तिथि	 मांग सूचना में राशि (रु.)
1.	मुकेश बाबू मित्तल, दीपिका मित्तल ग्लैमरी	बंधक सम्पत्ति के समस्त वह भाग तथा अंष जो तृतीय तल पर आम छत के साथ है, संपत्ति संख्या 296 / 7, खसरा संख्या 642, ग्राम—चंद्रावली, अर्थात् शाहदरा, फर्श बाजार, शाहदरा, नई दिल्ली, पिन—110032, परिस. ीमन इस प्रकारः पूर्व— संपत्ति संख्या 297 / 7, पश्चिम— संपत्ति	20.05.2022	 ऋण सं. HL/0031/H/18/ 100034, रु. 19,29,504/- (रुपए उन्नीस लाख उनतीस हजार पांच सौ चार मात्र) जो 07/11/2021 के अनुसार वसूली होने तक 14.00% वार्षिक की
		संख्या 298 / 7, उत्तर— गली, दक्षिण— संपत्ति संख्या 302		दर पर ब्याज के साथ भुगतानयोग्य है।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 24/05/2022

पंजाब नेशनल बैंक

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, पीठ-V, नई दिल्ली के समक्ष

प्रपत्र सं. सीएए. 2 ख्यारा 230 (3) एवं नियम 6 तथा 7 के अनुसरण में,

कम्पनी आवेदन सं. सी.ए.(सीएए)-28/एनडी/2022

के विषय में

अभिसार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी)

धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी)

उनके संबंधित शेयरधारक एवं क्रेडिटर्स

धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठक की

सूचना का विज्ञापन

लदहारा सचना दी जाती है कि माननीय न्यायाधिकरण ने एक आदेश दिनांकित 11 मई. 2022 हार

निदेशित किया गया है कि अंतरिती कम्पनी के "अप्रतिभूत क्रेडिटर्स" की एक बैठक अंतरणकर्त

कम्पनी तथा अंतरिती कम्पनी और उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच प्रस्तावित

समामेलन की स्कीम पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाए, संशोधन के साथ

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसाकि उसमें निदेशित किया गया है, एतदहारा आगे सूचना दी

जाती है कि अंतरितों कम्पनी के अप्रतिभृत क्रेडिटर्स की बैठक शनिवार, 25 जून, 2022 की दोपहर 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (**"वीसी"**) अथवा अन्य श्रन्य—दृश्य साधनों (**"अप्रिवीएम"**) के माध्यम

से और साथ ही होलीडे इन, 13 ए, मयुर विहार, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली—110091; भारत में आयोजित

की जाएगी, जिसमें अंतरिती कम्पनी के अप्रतिभृत क्रेडिटर्स के पास उसमें बैठक के ख्यान से अथव

नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा लिंक : https://evoting.nsdl.com के माध्यम से उपलब्ध कराए गए जूम प्लेटफार्म से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने क

विकल्प होगा, ताकि अप्रतिभृत क्रेडिटर्स उपरोक्त प्रस्ताव द्वारा स्कीम पर विचार और अनुमोदन कर

सकें। अंतरिती कम्पनी के अप्रतिमृत क्रेडिटर्स द्वारा स्कीम के संबंध में वोटिंग शनिवार, 25 जुन, 2022 को 12.30 बजे (आईएसटी) सभाध्यक्ष द्वारा औपचारिक घोषणा के पश्चात आरंभ होी और 14.30 बजे

. उक्त समामेलन की स्कीम और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230—232 के अधीन व्याख्यात्मक

विवरण की प्रतियां अंतरिती कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं अथवा अंतरिती कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि, श्री अमेरेन्द्र बहादुर सिंह (+91-9810614052), कम्पनी सचिव

से प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति

बैठक के स्थान पर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में माध्यम से स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम

से भाग ले सकते हैं तथा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि निदेशक मंडल अथवा कार्पोरेट

निकाय के अन्य शासी निकाय के प्रस्ताव अथवा पावर ऑफ अटॉनी अथवा ऐसे प्रतिनिधि को अंतरिती कम्पनी के अप्रतिभृत क्रेडिटर्स की बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने के प्राधिकार संबंधी प्राधिकार

पत्र की प्रति adv.parvindra@gmail.com को तथा उसकी प्रति ab.singh@dsgroup.com को विधियत ई—मेल कर दी गई है अथवा अंतरिती कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अंतरिती कम्पनी के अप्रतिभृत

क्रेंडिटर्स की बैठक आरंभ होने के नियत समय से कम से कम 48 (अड़तालीस) घंटे पूर्व जमा कर दी

न्यायाधिकरण ने उक्त बैठक के लिए श्रीमती तूलिका मुखर्जी, अधिवक्ता को अध्यक्ष, श्री आर्यन शर्मा प्रधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री परविन्द्र नौटियाल, अधिवक्ता एवं सहयोगी कम्पनी सचिव

को संबीक्षक नियुक्त किया है। समामेलन की स्कीम, यदि उपरोक्त बैठक में अनुमोदित की जाती है

विनांकित 24 मई, 2022

(₹ In Lakhs)

(अधिवक्ता

इस्ता./- तुलिका मुखर्जी

बैटक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

अथवा उसके बिना, अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए ।

न्यायाधिकरण के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

आईएसटी) बंद होगी।

Propositional bank पंजाब मेशनल बैंक ...the name you can BANK upon!

स्थानः नई दिल्ली

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, 9/90, प्रथम तल, पी - ब्लॉक, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, ईमेलः cs8334@pnb.co.in

साथ, इसके बाद रिकवरी को छोड़कर।

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स /बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभृत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं), आरक्षित मृल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्यामत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनसची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स/बंधककर्ताओं खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1	पीएनबी: पंजाबी बाग मैसर्स श्री श्याम फ्लोर मिल्स श्री सुनीत कुमार, श्रीमती कौशल्या देवी, श्री रोहित, श्री सोनू और श्री राकेश कुमार सैनी, पताः नया गांव, बरकताबाद तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा	00.04.0000	सम्पत्ति जोकि शेंड खेवत नं. 577 मिन, खतौनी नं. 713, किला नं. 118/5/2/1/2 और खतौनी नं. 714, किला नं. 119/1/1/1/1 भूमि क्षेत्रफल 283 वर्ग गज, गाँव खेड़ी समपला जिला रोहतक हरियाणा – 124501 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री राकेश कुमार के नाम पर है।	as 0.30 amag	24-06-2022 पूर्वाक 11.00 बजे से अपीड 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
	पीएनबीः पंजाबी बाग मैसर्स श्री श्याम फ्लोर मिल्स श्री सुनीत कुमार, श्रीमती कौशल्या देवी, श्री रोहित, श्री सोनू और श्री राकेश कुमार सैनी, पताः नया गांव, बरकताबाद तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा		सम्पत्ति जोकि खेवत नं. 189, खतौनी नं. 266, कुल क्षेत्रफल किटा 16 और 50 कनाल, 12 मारला, 8/1012 का हिस्सा, क्षेत्रफल 0–80 मारला (235 वर्ग गज) गाँव बरकाताबाद तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती कौशल्या देवी के नाम पर है।		24-06-2022 पूर्वाक 11.00 बजे से अर्पाक 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

ई--नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से उपरोक्तानुसार समय एवं तिथि के अनुसार की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app देखें। (5) प्राधिकृत अधिकारी का नामः श्री नेम कुमार, मो. 9911865757

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट : www.pnbhousing.com

शाखा का पता: एससीओ 136,1ला तल हुडा मार्केट, इलाहाबाद बैंक के ऊपर,

की तिथि

18.05.2022

(भौतिक)

यूनिट नं. सी 2403, ब्लॉक सी, सुशांत लोक

फ्लैट नं.-13. तीसरा तल. सेक्टर-34. ब्लॉक-

सी 19, पॉकेट-2, एलआईजी, रोहिणी, दिल्ली-

प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि

दिनांक : 23.05.2022, स्थान : नई दिल्ली

Finance Limited सेक्टर-21सी, फरीदाबाद-122001 (हरियाणा) ई-मेल: faridabad@pnbhousing.com

शाखा का पताः एस-८, उपहार सिनेमा कॉम्प्लैक्स, ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-

110016, टेली : 011-26512911 ई-मेल: greenpark@pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट

26.10.2021 26.10.2021 को रु. 54,65,948.48/-

(रुपये चौवन लाख पैंसठ हजार नौ सौ

अडतालिस एवं पैसे अड़तालिस मात्र)

(रुपये तेरह लाख इक्यानवे हजार दो

सौ सैंतालिस एवं पैसे अन्ठानवे मात्र)

31.03.2021 को रु. 13.91.247.98/-

का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा

pnb Housing

गारन्टर का नाम

मोनालिसा दास एवं अब्राहम

श्री पकंज नारंग तथा सुश्री अंशु

प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

Best Ağrolife Limited

Regd. Office: S-1A, Ground Floor, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Ph: 011-45803300, Email: info@bestagrolife.com , Website: www.bestagrolife.com Corporate office: B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026

CIN:L74110DL1992PLC116773 **EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022**

PARTICULARS	2	STANDALONE					CONSOLIDATED					
or the contract of the contrac	C	QUARTER ENDED			YEAR ENDED		QUARTER ENDED			YEAR ENDED		
The state of the s	31-03-2022	31-12-2021	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-12-2021	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021		
	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED		
Total Income from operations	25,813.08	20,719.40	20,812.94	1,13,427.44	90,544.50	30,935.34	23,249.24	20,812.94	1,21,079.54	90,544.50		
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,822.43	1,992.31	3,464.83	11,606.38	5,078.57	4,932.72	2,341.62	3,464.83	14,065.99	5,078.57		
Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,822.43	1,992.31	3,464.83	11,606.38	5,078.57	4,932.72	2,341.62	3,464.83	14,065.99	5,078.57		
Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	2,155.86	1,478.21	2,526.76	8,707.02	3,706.62	3,816.32	1,547.72	2,527.72	10,476.19	3,707.58		
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))		1,476.53	2,535.06	8,715.04	4,609.62	3,813.81	1,539.95	2,536.03	10,478.50	4,610.58		
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	2,364.47	2,364.47	2,203.21	2,364.47	2,203.21	2,364.47	2,364.47	2,203.21	2,364.47	2,203.21		
Earnings Per Share (EPS) (of ₹ 10/- each) on Net Profit (Not annualised) - Basic and Diluted	9.46	625	11.47	38.22	16.82	16.75	655	14:47	45.98	16.83		

Place: New Delhi

Date: May 23, 2022

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarter and Year ended financial results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website:
- www.bestagrolife.com The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 23, 2022. The audit has been conducted by statutory auditors of the Company
- and they have issued their Audit report with an un-modified opinion. The Board of Directors at their meeting held on May 23, 2022 have recommended a final dividend of ₹ 2/- (20%) per equity share of ₹ 10/- each.

कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है।

सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित दिनांक के अनुसार लिया है।

For Best Agrolife Limited Vimal Alawadhi Managing Director

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

DIN: 01260082

) बैंक ऑफ़ बहोदा Bank of Baroda from D -All

वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

HOU/FBD/0719/

बी.ओ. फरीदाबाद

HOU/GRP/0515

/218754

बी.ओ. ग्रीनपार्क

स्थानः फरीदाबाद, ग्रीनपार्क तिथिः 23.05.2022

की जाती है।

जेडओएसएआरबी, चीथा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008, armdel@bankofbaroda.co.in

चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेत ई-नीलामी विकय नोटिस

परिशिष्ट- IV-A [नियम 6(2) & 8(6) देखें]

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रीं) और गारंटर(रीं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्यामृत - दाता की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदारों / गारंटर्स / प्रतिभृत आस्तियां / बकाया / आरक्षित मृल्य / ई—नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि और बोली वृद्धि राशि नीचे वर्णित रूपए होगी ।

कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कुल बकाया
	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मैसर्स एसोसिएटेड		च. 2,50,15,812.89
1100, प्रथम तल, सक्टर—7सा, फरादाबाद, श्री सुशील कुमार पुत्र स्वं. चरण सिंह यादव	कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर बैंक को स्टॉक और अन्य दृष्टिबंधक आस्त्रियां		दिनांक 01.04,2018 से पूर्ण चुकौती की
(प्रोपराईटर), मकॉन नं. 2, अहिरवाड़ा,	प्लॉट नं. 1 MCF1529/1133 खसरा नं. 5//24/2/2& 9//4/2/2 का हिस्सा, राजीव	₹ 0.50 लाख	तिथि तक संविदात्मक
बल्लभगद	कॉलोनी धारकेवली वहसील बल्लामात जिला फरीवाबार में कियत		दर पर भविष्य का
श्रा नवान गायल पुत्र स्व. सत्यपाल गायल	यह सम्पत्ति श्री नवीन गोयल पुत्र स्वं. सत्यपाल गोयल के नाम पर है।		ब्याज, प्लस लागत,

श्रीमती कुसुम लता पत्नी स्वं. सत्यपाल गोयल (गाँरेटर) मकान नं. डीबी-174, गोयल भवन अहिरवाडा, बल्लभगढ कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक): भौतिक कब्जा से अपांड 04.00 बजे तक

ई-नीलामी तिथि एवं समय : 29-06-2022 को अर्पाह्य 02.00 बजे से अर्पाह्य 06.00 बजे तक बोली का टेंडर करना उद्ध संपत्तियों की कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार योग्य राशि होगी। उपरोक्त संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित सभी प्रभार बोलीदाता द्वारा वहने किए जाएंगे। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट

क्षेत्रफल 189.50 वर्ग गज, चौहदी सेल डीड के अनुसार : उत्तर में - अन्य

अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छक बोलीदाता प्राधिकत अधिकारी श्री पी गंगटे, फोन नं. 011 42268509-8003 मो.: 9711908984, 9711908984, 9814811413 से सम्पर्क करे। दिनांक: 23-05-2022, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

ब्याज, प्लस लागत प्रभार एवं खर्चे इत्यादि

की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, विशिष्टिया की विशिष्टियां सहादाः 20-06-2022 को पूर्वाह 11.00 बजे वास्ते निम्नलिखित राशि और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, शुल्क इत्यादि सहित के अधीन होगा।

क. सं.	खाते का नाम (कर्जदार/ गारंटर/बंधककर्ता)	बंधक सम्पत्तियों का विवरण			माँग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख		
		सर्स मुरलीवाला द फर्नीचर दृष्टिबंधक सम्पूर्ण स्टॉक फर्नीचर, जोकि प्लॉट नं. 5 ॉल इसके प्रोप. श्री सतीश और 6, एम ब्लॉक, राजा पुरी, सैक्टर-4 के विपरीत, इमार वशिष्ठ के माध्यम से द्वारका, नई दिल्ली-110059 में संस्थापित है।	क्र.सं.	सुविधा	लिमिट	दिनांक 30.04.2022 तक	07-03-2022
					बकाया (रु. में)	21-05-2022	
	agair aire o a moan a		1.	4447008700000082	CC (Hypothecation)	82,53,256.04	21-03-2022
					कुल	82,53,256.04	
	3		दिनां	दिनांक 30.04.2022 तक और भविष्य का ब्याज, लागत एवं अन्य प्रभार इत्यादि			
2	मैसर्स शिव शक्ति प्लास्टिक	व्यवसायिक सम्पत्ति (दुकान) उत्तरी हिस्सा, भूतल पर एक कमरा शामिल, (बिना छत के अधिकार के)	क्र.सं.	सुविधा	लिमिट	दिनांक 30.04.2022 तक	10-02-2022
		क्षेत्रफल ३०.०० वर्ग गज, सम्पत्ति नं. २५८ का हिस्सा.	HENDON	187500000	10000000	बकाया (रु. में)	19-05-2022
		खरूरा नं. 737 / 215 में से, खेबत नं. 12, खतौनी नं.	1.	52014011000068	CC (Hypothecation)	1,60,32,365.66	10-03-2022
	पत्नी श्री मिथन लाल गर्ग	22, कॉलोनी जिसे अब आदर्श नगर कहते है.		·	कुल	1,60,32,365.66	
		[[전기에 기계 전기에 가게 잘 되었다면 이 이 사이트 (C) 이 전에 대한 사이트 (C) 이 시간 시간에 있는 이 시간 (C) 사이트 (C) 사이트 (C) 시간 (C) 시간 (C) (C) 시간 (C)		क 30.04.2022 तक औ	र भविष्य का ब्याज, लागत	एवं अन्य प्रमार इत्यादि	

पंजाब नेशनल बैंक पाठिए punjab national bank

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, 9/90, प्रथम तल, पी - ब्लॉक, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, ईमेल: cs8334@pnb.co.in

प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की घारा 13(4) के नियम 8 (1) के साथ पठित (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत (इसके बाद "कहा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अधीन **पंजाब नेशनल बैंक**, का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित कहा गया) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदंत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता उक्त राशि का भगतान करने में असफल हो गये हैं. उपरोक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि चकाने के लिए और इसलिए यह नोटिस कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता तथा आम

जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **पंजाब नेशनल बैंक, के प्रभार**

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

दिनांक : 21.05.2022, स्थान : नई दिल्ली

(गारंटर), मकान नं. डीबी-174, गोयल

भवन अहिरवाडा, बल्लमगढ

www.readwhere.com

...the name you can BANK upon!